

प्रचर;

लेटर गुगल

आर सिवम एन (यूए) सिवम;  
गणितशास्त्र /

हस्ताक्षर,

मानसोप एनएड-आभाषाशास्त्र;  
गुवाहाटी ।

विषय:- प्रायः के ACE के आभाषित एनएड-आभाषाशास्त्र, गुवाहाटी  
महोदय को ज्ञात है कि प्रायः के एनएड के एनएड के  
द्वारा परामर्शित एवं परामर्शित के आभाषा के महोदय  
के एनएड के द्वारा ।

महोदय

लेटर गुगल से मेरे पास है कि उपरोक्त आभाषित विषय  
के एनएड के प्रायः के आभाषित उप-आभाषा के एनएड के  
द्वारा है कि एनएड के प्रायः के द्वारा परामर्शित एवं  
परामर्शित की आभाषा के द्वारा है।

काला श्रीमान् को है कि विषय मेरे पास है कि

प्रायः के ACE के लेटर परामर्शित, विषय के द्वारा एवं  
द्वारा परामर्शित के आभाषा के द्वारा महोदय के द्वारा एवं  
के द्वारा द्वारा प्रायः के द्वारा है कि विषय मेरे पास है कि  
आभाषा के द्वारा परामर्शित के द्वारा है कि विषय मेरे पास है कि  
आभाषा के द्वारा परामर्शित के द्वारा है कि विषय मेरे पास है कि  
आभाषा के द्वारा परामर्शित के द्वारा है कि विषय मेरे पास है कि

हस्ताक्षर ।

दिनांक - 13.09.2011  
संख्या - 7985-137601

महोदय  
लेटर गुगल  
आर सिवम (यूए) सिवम  
गणितशास्त्र

13/9/21

श्री, श्रीधर कुमल

अपत विधिम' एम' (प्र.अ.) विभाग;

राजिनावास)

श्री, श्री,

प्रभावी अधिकाही नकल/प्रमाण,

एमएड-आगलम, गुन्नागुल)

कृपया: प्र.अ. के संबंधित पत्रावलिगों के नकल-आही कले के  
(संख्या के)

अहोदन,

विभिन्न विवेदन हे कि प्र.अ. को आगलीन एमएड-आगलम/अ  
अहोदन, गुन्नागुल आग/अए के प्रतिकूल प्रस्ताही की गली हे।  
प्र.अ. के अए वर्ष 2020-2021 के कुड पत्रावलिगों पर 0-0 लेख  
एवं शिकागत प्र.अ. संलग्न किया गया है।

आप के विगत विवेदन हे कि प्र.अ. के प्र.अ. संलग्न  
अए की धाराप्रती के संबंधित पत्रावलिगों के वासपह आग सुंसीन  
आगला, पकागत/अगल एवं संवेलित अडिआ की नकल प्र.अ. प्र.  
के प्रिकुडु वर्ष 2020-21 के वि.अ.प्र.अग नकल 6075, गुन्नागुल  
के पदपट आगल (हेर डए-प्र.अ. के प्रिकुडु की गली 120कमा  
पह एवं आगलीन एमएड-आगलम/अ आग अए-अ आग अग  
अडिआ गली प्र.अ. आग अग शिकागत प्र.अ. पर की गली  
आगला की प्र.अ. आही कले की गली प्र.अ. के आगल  
प्र.अ. आगलीन प्र.अ./अगलम के अपगत अगला/अडर  
अडिआ पर है।

(संख्या)

दिनांक - 13.09.2021

अंग. 7985/37601

संलग्न - अए वर्ष 2020-2021 के  
अगल/अगल

अहोदन

श्रीधर कुमल

अपत विधिम' एम' (प्र.अ.) विभाग  
राजिनावास

दिनांक  
13/09/21

सं 11 में,

(259)

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
सुलतानपुर।

महोदय,

श्री संदीप कुमार, अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर श्रीमान ज्जी द्वारा माँगी गई आख्या के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा ए0सी0आर0 में संलग्न पत्रावलियों, शिकायती प्रार्थना पत्र एवं कुछ पंजिकाओं के मुआयना एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा के साथ अनुमति चाही गयी है। सम्बन्धित लिपिक अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट उल्लिखित नहीं किया गया है कि वे किन पत्रावलियों, शिकायती प्रार्थनापत्रों एवं पंजिकाओं का निरीक्षण करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य नियमावली सिविल के नियम-229 में दी गयी व्यवस्था (कार्यालय में कागजों का निरीक्षण तथा सरकारी सेवकों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है) के दृष्टिगत ए0सी0आर0 में सन्दर्भित पत्रावलियों, शिकायती प्रार्थनापत्रों एवं पंजिकाओं का निरीक्षण सम्बन्धित न्यायालय के लिपिक एवं अर्दली की उपस्थिति में उक्त न्यायालय के पी0ओ0 के विश्रामकक्ष में निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है।

आख्या माननीय महोदय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

*P. Srinivas*  
13/09/21  
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

①

*Approved. J. J. Jm.*  
*accordingly.*  
*13/9/21*

श्रीमान् जज (प्रवर खण्ड)

13/09/21  
03:50 PM